

गोरखपुर में नामी सीमेंट कंपनी के नाम पर बेच रहे थे नकली सीमेंट, कंपनी के अधिकारियों ने जाल बिछाकर गैंग को पकड़ा



गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर नामी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के नाम पर नकली सीमेंट बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों की सतर्कता से मंगलवार को चिलुआताल क्षेत्र में नकली सीमेंट बेचने वाला गैंग पकड़ा गया। गैंग के सदस्यों के पास से एक मैजिक में लदा 60 बोरी नकली सीमेंट बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अल्ट्राटेक के अधिकारियों ने बताया कि ने बताया कि कई दुकानदारों ने शिकायत किया कंपनी जिस रेट पर सीमेंट देती है कुछ लोग उससे 50 रुपए प्रति बोरी कम मूल्य पर सीमेंट दे रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही कंपनी के अन्य अधिकारी हरकत में आ गए। कंपनी के अधिकारियों ने दुकानदारों से संपर्क किया और नकली सीमेंट बेचने वालों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। दुकानदारों से कहा गया कि पचास रुपये प्रति बोरी कम कीमत पर सीमेंट देने वाले लोग सीमेंट लेकर आएंगे कंपनी के अधिकारियों को तत्काल सूचित करें।

375 रुपये प्रति बोरी बेची जानी थी सीमेंट नकली सीमेंट वाली गाड़ी ड्राइवर गोलू व मालिक रोहित कुशवाह ने बताया की 60 बोरा सीमेन्ट रवि सीमेन्ट से खरीदकर डोहरिया बाज़ार ओम ट्रेडर्स पर ले जा रहे थे। इसे 375 रुपये प्रति बोरी बेचना था। जबकि इस कंपनी का सीमेंट 455 रुपये प्रति बोरी है। इसके पहले भी यहां नकली सीमेंट की सप्लाई होती रही है। यह लोग यहां चार बार पहले भी नकली सीमेंट बेच चुके हैं। कंपनी ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Source: <https://m.jagran.com/uttar-pradesh/gorakhpur-city-fake-cement-was-being-sold-in-the-name-of-ultratech-cement-officials-of-ultratech-company-caught-60-sacks-of-fake-cement-22845289.html>